

were dealt with at this station. The passenger traffic has increased in the post war period.

(c) Yes, Sir

(d) Bhetaguri is only a flag station. It is proposed to provide a waiting hall, a waiting room for ladies and lavatories both for gents and ladies during the current year.

Salk Vaccine

1354. **Shri Ramam:** Will the Minister of Health be pleased to state

(a) whether any consignment of gift of salk vaccine to the Indian Red Cross Society from the American

Red Cross Association has recently arrived in India,

(b) if so, the date of arrival and the dates of distribution of the same to hospitals,

(c) whether the expiration date of the vaccine was marked on the vial,

(d) if so, the date so mentioned, and

(e) the period of complete course of injection of this medicine?

The Minister of Health (Shri Kar-markar): (a) Yes

(b) The date of arrival and the dates of distribution are given below

	Quantities	Date of despatch and the institution to which it was despatched	Date on which distributed to hospitals
	1	2	3
<i>First consignment</i>			
(Date of arrival 18-6-58)	700 vials	18-6-58—Bombay State Red Cross Branch	20-6-58
	1,000 vials	18-6-58—West Bengal Red Cross Branch	It was handed over to the Directorate of Health Services, West Bengal on the 20th June, 1958. The vaccine was not issued by the Directorate to hospitals but is being utilised for giving protective inoculations to school children.
	12 vials	20-6-58—Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi	20-6-58
	288 vials	2-7-58—Kalavati Saran Children's Hospital, New Delhi	2-7-58
<i>Second consignment</i>			
(Date of arrival 31-7-58)	700 vials	31-7-58—Bombay State Red Cross Branch	6-8-58
	1,000 vials	31-7-58—West Bengal Red Cross Branch	It was handed over to the Directorate of Health Services, West Bengal on the 8th August, 1958. The vaccine was not issued by the Directorate to hospitals but is being utilised for giving protective inoculations to school children.
	12 vials	31-7-58—Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi	31-7-58
	288 vials	31-7-58—Kalavati Saran Children's Hospital, New Delhi	31-7-58

(c) Yes.

(d) For First consignment—9-7-58.
For Second consignment—
17-9-58.

(e) Complete immunization by this prophylactic is covered by 3 injections of one cc each at an interval of 2—3 weeks between the first and second doses and about 7 months between the second and third doses.

Ghaziabad Telephone Exchange

1355. **Shri Ramam:** Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ghaziabad (U.P.) telephone exchange has a board for 400 lines;

(b) whether at present there are a little under 200 telephones in Ghaziabad;

(c) whether applications for new connections are not being considered; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Transport and Communications (Shri S. K. Patil): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No. Telephones are being provided on application.

(d) Does not arise.

रेलवे मंत्रालय

१३५६. श्री क० भे० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्रालय में कितने असिस्टेंट और क्लर्क हैं ;

(ख) उन में से कितने कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं ;

(ग) डेपुटेशन पर आये कर्मचारियों, रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों और मंच लोक सेवा आयोग के द्वारा आये कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों में क्या अन्तर है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) ७६६ (३३६ सहायक और ४३० क्लर्क) ।

(ख) ३०८ (१८२ सहायक और १२६ क्लर्क) ।

(ग) जो कर्मचारी रेलवे बोर्ड में रोजगार दफ्तर (employment exchange) या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्त होते हैं या जिनकी प्रतिनियुक्ति (deputiation) रेलों में होती है, उनकी सेवा की शर्तों में कोई अन्तर नहीं होता, सिवाय इसके कि रेलवे में आये हुए कर्मचारी को अपने मूल कार्यालय (parent office) में तरक्की पाने का उस समय तक अवसर दिया जाता है जब तक कि रेलवे मंत्रालय में उसे किसी पद पर तक (limit) न मिल जाय ।

द्विभाषी प्रपत्र

१३५७. श्री क० भे० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने विभिन्न रेलों में प्रयोग के लिये उन्हें द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) प्रपत्र भेजे हैं ,

(ख) यदि हा. तो कितने ;

(ग) यदि नहीं तो देरी के क्या कारण हैं , और

(घ) १९५८ में कौन कौन से प्रपत्र जारी करने का इरादा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) मे (घ) रेलवे के कुछ विभागों में हिन्दी-अंग्रेजी फार्म जारी करने का फैसला किया गया है । हिन्दी-अंग्रेजी फार्मों की पहली किस्त में १८ फार्म हैं जिनका सम्बन्ध वाणिज्य विभाग से है और इनमें अग्रप्रेषण नोट (forwarding notes), माल